#### November 14, 2019

Bombay Stock Exchange, Floor – 25, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, Mumbai –400 001

#### Scrip Code: 505729

SINGER

- Sub: Compliance under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015
- Re: Newspaper advertisement for the publication of Standalone & Consolidated Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2019

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing the copies of Standalone & Consolidated Financial Results for the quarter and half year ended 30<sup>th</sup> September, 2019 published in 'Indian Express' (English) and 'Jansatta' (Hindi) on 14<sup>th</sup> November, 2019, for your information and records.

Thanking You.

Yours faithfully For Singer India Limited

Privanka Gandhi Company Secretary

Encl: As above

#### SINGER INDIA LIMITED

Registered & Head Office : A-26/4, 2<sup>nd</sup> Floor, Mohan Cooperative Industrial Estate, New Delhi-110044 Tel. : +91-11-40617777 Fax : +91-11-40617799 Toll Free No. 1800-103-3474 E-mail : mail@singerindia.net Website : www.singerindia.net CIN : L52109DL1977PLC025405

#### India denies Bangla reports on PM pat for CJI Ayodhya verdict: Ahead of meet, many in AIMPLB favour review petition over the Ayodhya verdict. The Indian High Commission EXPRESS NEWSSERVICE Ministry of External Affairs in Dhaka too issued a statement. NEW DELHI, NOVEMBER 13 spokesperson Raveesh Kumar "It has come to the notice of the social disharmony," it added.

#### **ABANTIKA GHOSH** NEW DELHI, NOVEMBER 13

AHEAD OF the All India Muslim Personal Law Board's (AIMPLB) working committee meeting on November 17, a "dominant view" is emerging within the organisationthata review petition should be filed in Supreme Court on its verdict in the Ram Janmabhoomi-Babri Masjid case, said sources. "The dominant view emerg-

ing within the board is that we

Cong MP urges Sonowal to rethink choice of NRC coordinator

#### **ABHISHEK SAHA** GUWAHATI, NOVEMBER 13

CONGRESS'S BARPETA MP Abdul Khalegue on Wednesday wrote to Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal, urging him to reconsider the appointment of Hitesh Dev Sarma as the new NRC state coordinator.

Sarma, a 1989-batch Assam civil service officer, was appointed lastweekafter the incumbent, Prateek Hajela, was released from duty for inter-cadred eputation to MP after a Supreme Court order. Khalegue wrote that Sarma

was neither "unbiased nor trustworthy" and referred to his "posts on Facebook". In a post on Feb-

have fought this for so long and we should file a review petition. However, there is another view

that what has happened is done. They feel it (filing a review petition) will be a waste of time. A final picture will emerge only after the working committee meets," said a source. A section within AIMPLB be-

lieves that since the judgment wasunanimous, there is little "ray of hope" for a review petition.

 $\langle \rangle$ 

The Supreme Court on Saturday ruled that the disputed

7th Day of November of the Year 2019

of the time available to redeem the secured assets.

amounts and interest thereon.

area be handed over to a trust for construction of a Ram Temple. The court, however, held that the act of placing idols inside the mosque in 1949 was "desecration", that there is no evidence that Babri Masjid was built after demolishing a temple and that the 1992 demolition of the mosque was against the rule of law.

The court also ruled that Muslims be given a five-acre plot for construction of a mosque.

Whereas, the undesigned being the Authorised Officer of Indian Overseas Bank, under Securitisation &

Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers

conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued Demand Notice Dated 03.07.2019 calling upon the following Borrowers / Guarantors to repay the amount mentioned

The Borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers/guarantors and the public in general that the undersigned has taken possession of the properties described herein below in exercise of

the powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on this

The Borrowers / Guarantors in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the

properties and any dealings with the properties will be subject to the charge of the Indian Overseas Bank for the

The borrower's attention is invited to the provisions of Sub - Section (8) of the section 13 of the Act in respect

SI.No.1: Borrower / Mortgagor / Guarantor : M/s.AKS Alloys Pvt. Ltd, R.S.No.81/1,3 To 7, Eripakkam

Amount Claimed as per Demand Notice: Rs.21,98,93,335.56 as on 29.06.2019 with further interest at

contractual rates and rests, charges etc, from the aforesaid date mentioned in the demand notice till date of

payment less repayments, if any, made after issuance of Demand Notice; The dues payable as on 31.10.2019

is Rs.23,00,69,494.56 payable with further interest at contractual rates & rests, charges etc., till date of payment.

SI.No.2: Borrower / Mortgagor / Guarantor : M/s.SAR Ispat Pvt.Ltd., Factory: R.S.No.214 & 215, Village

Kalithirthalkuppam, Thirukanoor Road, Madagadipet Post, Puducherry-605 107. (Hereinafter referred as

Amount Claimed as per Demand Notice: Rs.25,85,87,524.98 as on 29.06.2019 with further interest at

contractual rates and rests, charges etc. from the aforesaid date mentioned in the demand notice till date of payment less repayments, if any, made after issuance of Demand Notice; The dues payable as on 31.10.2019

is Rs.27,17,99,139.98 payable with further interest at contractual rates & rests, charges etc., till date of payment.

Village, Nettapakkamcommune, Puducherry-605 106. (hereinafter Referred as 'Borrowers'

There are differences within the community about whether

Indian Overseas Bank

**KILPAUK BRANCH** 

in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice.

the five-acre land should be accepted.

> "There is a proposal for a review petition but no call can be taken before the working committee meets...whatever the decision, the aim will be to build consensus," said AIMPLB secretary and advocate Zafaryab Jilani, who argued the case for the Muslim parties.

Anothermember of the board said various Muslimorganisations are holding internal meetings to arrive at a decision.

E-mail: iob0571@iob.in

477, Kilpauk Garden Road, Kilpauk,

Chennai-600 010, Ph: 044-2646 1141 / 0178

POSSESSION NOTICE (For Immovable Properties (Rule 8(1)))

INDIA ON Wednesday termed as "malicious" and "fake" reports by a section of Bangladesh media that claim Prime Minister Narendra Modi congratulated Chief Justice of India Ranjan Gogoi

tweeted, "We strongly condemn those responsible for deliberately spreading such fake and malicious news, to divide communities, create disharmony and undermine friendship between the people of India and Bangladesh."

High Commission that a letter said to have been written by Prime Minister of India Narendra Modi to Chief Justice of India is being circulated in the local media," the High Commission said. "This letter is completely fake and malicious. It is intended to mislead people in Bangladesh and create

The High Commission said it was "most egregious" and "wrong" on the part of those who are deliberately circulating fake and incorrect information to cre atemisunderstanding about India in the public domain.



Head Office: 2, Netal Subhash Road, Kolkata-70000

Zonal Office: Gaya

#### NOTICE OF E-AUCTION

E-auction of property on 30.11.2019 on "AS IS WHERE IS BASIS, AS IS WHAT IS BASIS" & "WHATEVER THERE IS" on the platform https://allahabadbank.auctiontiger.net

E-auction sale notice for sale of Immovable Assets under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in genera and in particular to the Borrower/s and guarantor/s that the below described immovable properties mortgaged/charged to the secured creditor, the constructive possession of which has been taken by the Authorised Officer of Allahabad Bank Secured Creditor, will be sold on "As is where is" "As is what is" and "whatever there is" basis as on 30.11.2019. The details of bank's dues, Borrower & Guarantors, Reserve Price, Earnest money & Description of immovable properties is given below:

No	Details of immovable properties	Name of the Borrower(S)	Amount of Secured Debt	Reserve Price (in Rs)	Earnest Money Deposit (EMD)	Branch
	(1) Equitable Mongage of all part & parcel of land & Building situated at Chilhaki, P.O. Amba, P.S. Kutumba, District-Aurangabad having Khata No-45 Plot No 705, Thana No-467, Thana Kutumba, Area 12.5 Decimals standing in the name of Smt Lalita Devi W/o Sr Pravin Kumar vide sale deed No-11460 dated 06- 08-2013 Book No-1 Zild No-155/2013 Page No-182- 189, Bounded as under (as per deed): North- Shyam Bihari Pandey & Rasta, South-Nawal Kishore Sharma, East- Sheo Pujan Prajapati, West- Pramod Pandey, (2) Equitable mortgage of all part & parcel of land & Building situated at Chilhaki P.O. Amba P.S-Kutumba, District-Aurangabad having Khata No-45 Plot No- 510,513 Thana No-467, Thana-Kutumba Area-7.812 decimals standing in the name of Smt. Lalita Dev w/o Sri Pravin Kumar vide sale deed No-11793 dated 03-11-2011 (Book No 01) Zild No-157/2011 page No- 397-404 CD-25. Bounded as under (as per deed): North-Bijay Pandey, South-Road & Nij, East-Pramod Pandey, West -Prahlad Pandey.	Prop: Smt Lalita Devi W/O Sri Praveen Kumar, Address: Ward No.12, New Area, M.G. Road, Aurangabad, DisttAurangabad (Bihar), PIN- 824101	80,49,766/- (Rs. Eighty Lakh Forty Nine Thousand Seven Hundred Sixty Six Only) with up to date interest. as on 16.04.2019 Cost & Charges thereon till the date of realization	Fifty only)	4,99,605/- (Rupees Four Lakh Ninty Nine Thousand Six Hundred Five only)	Aurangaba

Branch, Bihar.

ruary 13, Sarma said there were "lakhs and lakhs of Bangladeshis in the NRC". In another post on November 15, 2017, he said, "Minority appeasement policy for the last seven decades has changed the definition of secularism."

#### COMMON SECURITY OF BOTH ACCOUNTS (SI.Nos.1 & 2)

Entire second floor only without roof rights in the free hold property bearing No. 24 in Block-G build upon land measuring 169 sq. mts. situated at Community Centre G Block Vikaspuri New Delhi - 110118 along with proportionate undivided rights beneath land in the name of M/s. Prudent Constructions Pvt Ltd. Entire Plot No. G 24 bounded as under: North - Plot No. 25, East - Open, West - Open, South - Plot no. 23. Registered at Sub-Registrar-VII, INA VikasSadan New Delhi

Date : 07.11.2019 Place: Kilpauk, Chennai

'Borrowers')

Authorised Officer Indian Overseas Bank Date & Time of e-auction: 30.11.2019 from 12.30 PM to 2.30 PM at the platform of http://alia.habadbank.auctiontiger.net

For further details and Terms & Conditions, Contact: Shri Mithilesh Kumar Jha (Chief Manager), Mod-8004585000/9593653562, Shri Ayus Kumar Bhadani (Senior Manager), Mob-8052365563, Rajeev Kumar (Branch Manager)-7979096589.

For downloading further details and lerms & Conditions, Please Visit: [i] https://www.allahabadbank.in [ii] http://www.tenders.gov.i (iii) https://allahabadbank.auctiontiger.net

Date : 07.11.2019 Place : Aurangabad Authorized Unicer Allahabad Bank

				Rs. Crores, ex	cept per equ	ity share data	
a statestern			Unaudit	and the second se		Audited	
Particulars		uarter Ende		Half Year	and the second se	Year Ender	
	30.09.2019	30.06.2019	30.09.2018	30.09.2019	30.09.2018	31.03.2019	
Total income		472.09	296.48		749.91	1,413.71	
Net profit / (loss) for the period (before tax and exceptional items)		22.52	(10.95)		15.97	24.33	
Net profit / (loss) for the period before tax (after exceptional items)		22.52	(10.95)		15.97	24.33	
Net profit / (loss) for the period after tax (after exceptional items)		16.66	(7.74)		12.37	19.57	
Total comprehensive income for the period comprising Profit / (loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]		16.48	(7.23)		14.43	18.15	
Equity Share Capital		14.48	14.48		14.48	14.48	
Other equity (excluding revaluation reserves)		1			-	399.11	

11.51

the Quarterly / Annual Financial Results are available on the websites of Stock Exchange(s) (www.bseindia.com,

(5.35)

X pricol

#### PRICOL LIMITED CIN. L34200TZ2011PLC022194 Regd. Office : 109, Race Course, Coimbatore - 641 018. Phone : + 91 422 4336000, website : www.pricol.com, e-mail: cs@pricol.co.in

			Standalone		Consolidated					
	PARTICULARS	For the Three	Months Ended	For the Half Year Ended	For the Three	For the Half Year Ender				
	TANICOLARS	30-Sep-2019	30-Sep-2018	30-Sep-2019	30-Sep-2019	30-Sep-2018	30-Sep-2019			
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited			
1.	Total Income	31858.56	36995.57	63888.65	32305.15	37478.53	64652.67			
2.	Net Profit / (Loss) before Exceptional items & Tax	(1188.66)	528.77	(1628.84)	(1153.83)	554.34	(1617.14)			
3.	Exceptional Items (Refer Note No. 2)	(564.29)	2	(2056.50)						
4.	Net Profit / (Loss) before tax (after Exceptional items)	(1752.95)	528.77	(3685.34)	(1153.83)	554.34	(1617.14)			
5.	Net Profit / (Loss) after tax from Continuing Operations (after Exceptional items)	(1790.25)	287.84	(3697.48)	(1204.59)	299.33	(1656.61)			
6.	Profit / (Loss) from Discontinued Operations (Net of Tax Expense)			-	(4762.58)	(1749.99)	(6924.30)			
7.	Net Profit / (Loss) after tax from Continuing and Discontinued Operations (after	(4700.25)	287.84	(2607.49)	(5067.47)	(1450.66)	(9590.04)			
0	Exceptional items)	(1790.25)		(3697.48)	(5967.17)	(1450.66)	(8580.91)			
8.		(1781.86)	238.94	(3680.70)	(5384.66)	(1536.34)	(7997.60)			
9.	Paid-up-Equity Share Capital (Face Value of ₹ 1/- each)	947.97	947.97	947.97	947.97	947.97	947.97			
10	. Earnings per Equity Share for profit / (loss) from Continuing and Discontinued operations (Face Value of ₹ 1/- each) in Rupees									
	(a) Basic	(1.89)	0.30	(3.90)	(6.29)	(1.53)	(9.05			
	(b) Diluted	(1.89)	0.30	(3.90)	(6.29)	(1.53)	(9.05)			

#### Notes:

- 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Half Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results are available on the Stock Exchange websites www.bseindia.com, www.nseindia.com and Company's website www.pricol.com.
- 2. The Share Purchase Agreement for hiving off 80.50% of its investment in wholly owned subsidiary, Pricol Espana S.L., Spain, along with its stepdown subsidiaries and 74% of its Investment in Pricol Wiping Systems India Limited, is pending implementation and the approval of the lenders and regulatory authority is awaited. During the current half year, the Company has made an additional investment of ₹ 2,056.50 Lakhs which has been provided and charged to Profit & Loss account as an exceptional item. Any further charge or reversal to / from Profit and Loss account will be appropriately dealt with in the period in which the transaction reaches finality.
- 3. Consequent to the proposed divestment as stated above, which significantly represents a separate geographical area of operations, these have been classified as assets held for sale - Discontinued Operation (Disposal group) as required under Ind AS 105 - Non Current Assets held for sale and Discontinued Operations. Discontinued operations are excluded from the results of continuing operation and have been presented as a single amount of Profit / (Loss) in the consolidated results.

Coimbatore 12th November 2019 By Order of the Board VANITHA MOHAN CHAIRMAN DIN: 00002168

#### Mahendergarh - 123031 EMPLOYMENT NOTICE

Advt. No.: 3/NT/R/2019 Date: 13.11.2019 Applications are invited from the eligible candidates for appointment to the post of Junior Engineer (Civil) on

www.nseindia.com) and on Company's website (www.smlisuzu.com).

# **CENTRAL UNIVERSITY OF HARYANA**

8.55

13.53

For and on behalf of

the Board of Directors

Managing Director & CEO

(Yugo Hashimoto)

DIN: 08165797

The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of

short term contract basis. Application Form and other related details are available on the University's Website www.cuh.ac.in. The last date for submission of application is12.12.2019, 05:30 PM. Registrar



2. Diluted (Rs.) :

Place : New Delhi

Date: 13.11.2019

Notes:

**DELHI ELECTRICITY** REGULATORY COMMISSION Viniyamak Bhawan, C-Block, Shivalik, Malviya Nagar, New Delhi-110 017. Telefax: 26673608, 41080417

### ENGAGEMENT OF STAFF **CONSULTANTS (TARIFF-FINANCE) IN** TARIFF DIVISION OF DERC.

ELECTRICITY REGULATORY DELHI COMMISSION invites applications for engagement of 03 Staff Consultants (Tariff-Finance) to assist the Tariff Division of the Commission in the matters related to Tariff determination.

For details such as eligibility, qualifications, experience and other terms & conditions of engagement, application format etc, please refer to DERC website www.derc.gov.in. The last date for receipt of application is 30 days from the date of publication of advertisement in newspapers.

Sd/-(Mukesh Wadhwa) Secretary

Delhi Electricity Regulatory Commission DIP/SHABDARTH/0983/19-20

ess.com

#### Statement of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the guarter and half year ended 30 September 2019

Singer India Limited

CIN: L52109DL1977PLC025405

(Rupees in lakhs, except for the share data and if otherwise stated)

				Stand	dalone					Conso	olidated		
S.		(	Quarter ende	d	Half year ended Year ended				Quarter ende	d	Half ye	Year ended	
No.	Particulars	rticulars         30 September         30 June         30 September         30 September		31 March 2019	30 September 2019	30 June 2019	30 September 2018	30 September 2019	30 September 2018	31 March 2019			
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1,	Total income	10,337	12,415	10,625	22,752	21,703	48,469	10,339	12,419	10,628	22,758	21,709	48,490
2	Net Profit for the period before tax	246	222	248	468	548	1,459	245	223	250	468	551	1,470
3,	Net Profit for the period after tax	157	142	158	299	350	926	156	143	159	299	352	939
4,	Total comprehensive income for the period / year (comprising profit for the period after tax and Other Comprehensive Income after tax)	155	140	157	295	348	918	154	141	158	295	350	931
5.	Paid-up equity share capital (face value of Rs. 2 each, fully paid)	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074
6.	Reserves excluding revaluation reserve as per balance sheet					-	4,820		*			87	4,845
7.	Earnings Per Share (of Rs. 2 each) (not annualised for quarters /half years) a. Basic (Rs.) b. Diluted (Rs.)	0.29 0.29	0.26 0.26	0.29	0.56 0.56	0.65 0.65	1.72	0.29 0.29	0.27 0.27	0.30 0.30	0.56 0.56	0.66 0.66	1.75

Notes:

Place: New Delhi

Date : 13 November 2019

1. The Company doesn't have any exceptional and extraordinary item to report during the above periods.

2. The above Unaudited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at the Meetings held on 13 November 2019.

3. The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated Financial Result for the quarter and half year ended 30 September 2019 filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the financial results are available on the stock exchange website, www.bseindia.com and on the Company's website, www.singerindia.net.

> For Singer India Limited Sd/-

> > (Rajeev Bajaj) Managing Director





## राष्ट्र

हैदराबाद, 13 नवंबर (भाषा)।

## टीएसआरटीसी हड़ताल : एक और कर्मचारी ने की आत्महत्या

जिंदल पॉलि फिल्म्स लिमिटेड

सीआईएन : L17111UP1974PLC003979

राबाद, 13 नवंबर (भाषा)। (टीएसआस्टीसी) के एक अन्य चालक ने महबूबाबाद हड़ताल को 40 दिन हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि जिले में बुधवार को कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। ए नरेश (45) ने सुबह अपने घर में जहर खा लिया तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम टीएसआस्टीसी के कर्मचारी संघ की अनिश्चितकालीन उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई

टांजाब लेखलाल बैंक 🍳 punjab national bank सर्कल ऑफिसः 1– पल्टन बाजार, क्लॉक टॉवर, देहरादून, फोन नं० 01352710107

(सरफेसी अधिनियम प्रतिमूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के धारा 13 (2) के तहत, सुरक्षा हित शासन 2002 नियम 3 के साथ) अप सभी को इस वैकल्पिक सेवा के अलावा पूर्व में जारी सूचनाओं के सुपर्द हुए बिना वापस आने के बाद, मैं जमानती लेनदार बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में यह सूचना जारी करता हूं। अतः आप सभी निम्न वर्णित ऋणियों/गारंटरों को एतद्दवारा सूचित किया जाता है और सरफेसी अधिनियम प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के धारा 13(2) के निवम 3 के अन्तर्गत सार्वजनिक मांग सूचना जारी की जाती है। ताकि आप सभी अपने पक्ष में निम्न वर्णित बकाया का भुगतान इस प्रकाशन के उपरांत 60 दिनों के अंदर करें। कृपया यह नोट करें कि यदि आप मांगी गई सम्पूर्ण राशि का 60 दिनों के अंदर मुगतान नहीं करते है तो बैंक उक्त अधिनियम के बारा 13(4) के तहत ऋण खाते में बंधक सम्पत्ति/सम्पत्तियों पर कब्जा करने की प्रक्रिया आरंभ करेगा और उसके बाद उक्त अधिनियम के तहत बकाया सहित बकाया देनदारी की वसूली के लिए उसे बेचेगा। बकाया देनदारी की वसूली के लिए बैंक के पास उपलब्ध सुविधाओं से पक्षपत किए बिना आप सभी के विरुद्ध निम्न सूचनाएं जारी की जाती है। कार्यव का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को खुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है

東克	ऋणी/बंधककर्ता/गारन्टर के नाम	प्रतिभूति/सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना तिथि	बकाया राशि
	पताः 55/3 ई0 सी0 रोड देहरावून- 248001, 2. श्री चतर सिंह सजवाण (डायरेक्टर), आवासीय पताः 376 अदूरवाला ऑशिक, मनिवाला, तहसील- ऋषिकेश, जिला-देहरादून- 278161 3. श्री संजय सिंह सजवाण (डायरेक्टर), आवासीय पताः गली नं0 3वी, सालावाला, देहरादून-248001 4. श्री नीता सिंह सजवाण (डायरेक्टर), आवासीय पताः गली नं0 3वी, सालावाला, देहरादून-248001 फसली वर्ष 1411 से 1416 खसरा नं0 106 मि दून, तहसील -ऋषिकेश, जिला- देहरादून, उप-नि 302 पेंज 405 से 504 अतिरिक्त बही नं0 389 पर पंजीकृत है। सीमार्थेः- पूर्वः श्री चतर सिंह की	सम्पति नं0 1. भूमि एवं भवन कोल्हू जॉट खासरा नं0 254 एवं 54 ग्राम वार्था कोसी पोस्ट ऑफिस फैजाबाद, तहसील- बेहात जिला- सहारनपुर, उप-निबन्धक बेहात जिला-सहारनपुर वही नं0 1 जिल्ह नं0 1909 पेज 329 से 368 पंजीकृत नं0 7045 दिनांक 14.09.2010 पर पंजीकृत है। सीमायें:- पूर्व श्री नजीर सदर जैदी की कृषि भूमि, पश्चिमः श्री नधी राम की कृषि भूमि, उत्तरः श्री उमेश गीर की कृषि भूमि, दक्षिणः श्री जगरूप की कृषि भूमि। सम्पति स्वामीः संजय कंस्ट्रक्शन। सम्पति नं0 2. मूमिधरि भूमि खाता खतौनी नं0 882, न, क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर मौजा अदूरवाला परगना परवा वन्धक ऋषिकेश, जिला- देहरादून बही नं0 1 जिल्ड नं0 पेज 495 से 504 पंजीकृत नं0 2573 दिनांक 25.07.2005 भूमि माप 120 मीटर, पश्चिमः विक्रेता की भूमि माप 120 क्षिणः देहरादून से ऋषिकेश हाईवे, माप 20 मीटर। सम्पत्ति	को जारी सरफेसी 13(2) का नोटिस जिसमें रू0 <b>1,74,63,171.64/-</b> + ब्याज + अन्य प्रभार भुगतान करने को कहा गया था जो पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया था वह अप्राप्त वापस आ गया	31.10.2019 को रु0 1,74,63,171.64 + प्रभावी ब्याज एवं अन्य खर्चे दिनांक 01.11.2019 से
f	रेनांक—13.11.2019	स्थान – देहरादून	प्राप्ति	वेकृत अधिकारी

	Comore Douls			अनडिलिवर्ड	161.14 67.2	(10.55)	228.38	43.39 (4		जारी प्रचालनों से अवधि हेतु लाभ,	ALC: MARKING THE MARKING			157.64	64.51	(13.54)	222.14	37.59 (387.
मारत सरकार का उपक्रम	Canara Bank			अनाडालवड डिमांड नोटिस					3	आय (कर पश्चात	ARE 012003-46 U.L	- DDIC 5-3						
क ऋणी/गारं		बंधक स का वि		स्पीड ∕रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा डिमांड नोटिस की तारीख	7.85 27.7	3 50.78	35.58	77.40		हेत आरोप्य. बंद प्रचालनी से	अवधि हेतु कुर	त्र समावेशी आग	। (जिसमें	4.77	2.83	2.89	7.59	5.80 36
1. शाखाः चौकी चौराहा, बरेली 1. श्री असीम अहमद पुत्र इस्तियाक अहमद, य		ग्राउंड फ्लोर । जगतपुर रिथत ला	पर अपार्टमें	25.10.2019	10022000 10040051	- 200 - 5-27,3 - 65	200522000	0.001226		अवधि हेतु लाम, आय (कर पश्चार						100000	. 1. 2007 0	2002 0022
	अगरापुर लाला अगम, कंक एम्पलप, बरला र खान, मकान नं. 116 घेर जाफर खान पुराना शहर	विष्ठमध्य मेन शाराज	तक अडमद वं	" " डिमांड नोटिस की तारीख * 25.10.2019					1	हेतु आरोप्य,					1011000			
acet	नाम। क्षेत्रकल 67:00 वर्ग गजा। सीमायेउत्तरः बाकी संपत्ति, दक्षिण : मार्ग 20 फुट चौडा, पूर्व: रु0 846767.00 दिनांक				168.99 94.5	40.23	263.96	120.79 (2		बंद और जारी प्र (जिसमें अवधि हे		1200		162.41	67,33	(10.65)	229.73	43.39 (350.
		कीमती कोसर फा पश्चिम:प्राइवेट मार्ग	त्मा का प्लौट	. 25.10.2019 को+ब्याज व अन्य						समावेशी आय (व धारकों हेत्र आरो		म्मिलित हैं) मूल	के इक्विटी					
2 शाखाः ढाका जे पूरनपुर , जिला पी		आवासीय संपत्ति रि ~158 मौहल्ता-		1 31.10.2019	43.79 43.7	9 43.79	43.79	and the state of the section of the	43.79	प्रदत्त इक्विटी शे	ायर पूंजी (अंवि		)/- प्रत्येक)	43.79	43.79	43.79	43.79	43.79 43
धीलीभीत	ठान नं. 158 मौहल्ला-कायस्थान अशिक) पूरनपुर जिला- कान नं.–158 मौहल्ला-कायस्थान अंशिक पुरनपुर जिला-	अंशिक पूरनपुर जि क्षेत्रफल 94,482	जेला पीलीभीत 2 वर्गमीटर	त डिमांड नोटिस की तारीख 31.10.2019	36.84 15.3	6 (2.41)	52.20			अन्य इक्विटी (पुर मूल एवं तनुकृत			जारी प्रचालन	36.04	14.73	(3.09)	50.77	1,415 8.59 (88.
पीलीमीत 3. श्रीमती पिंकी पत्नी सुरज कुमार याम–देवकली पो	स्ट–बांदा, तहसील–पोवायन जिला– शाहजहाँपुर	सन्याता आ आगत श्रीमती अनीता देवी	के नाम।	रु० 473460.43 दिनांक	(0.12) 4.3 36.72 19.7	1 - 60 m	4.24	2.82 12.73 (		मूल एवं तनुकृत मूल एवं तनुकृत				1.09	0.65 15.38	0.66 (2.43)	1.74 52.51	1.33 8 9.91 (80.
कायस्थान अंशिक, पुरनपुर जिला–पीलीभीत	गार्जियन श्रीमती अमीता देवी मकान नं 158 मौहल्ला- ार्जियन श्रीमती अनिता देवी मकान नं 158 मौहल्ला -	मकान, दक्षिणः मकान, पूर्व रस्त	हरिओम क ता 15 फिट	31.10.2019 का+ब्याज व अन्य हा खर्चे दिनांक 19.10.2019 से	टस :	5 (513)		10031	10100200	प्रचालन	10.00	Case on a lo	102.000.000	1000		120.02	1000001	
कायस्थान अंशिक, पूरनपुर जिला– पीलीमीत ६. कमारी अन्त द्वारा रियल मदर एंड नेचरल गाजिय-	न श्रीमती अनीता देवी मकानन न.– १५४ मीहरत्स– कायरथा	पश्चिमः देवे दत्त के न अशिक पूरनपुर जिल	जापीलीभीत	+ रु० 71890.33 दिनांक नी 31.10.2019 को+ब्याज व अन्य 1. खर्च दिनांक 02.10.2019 से 2.	वित्तीय परिणाम	भारतीय लेखा लेखाण्डीमा	कन मानक ('र बसिति टारा ।	प्राईएनडी एएस" प्रत्येश्वित किंग	) के अनुसार गए थे लग	र तैयार किए गए । निदेशक मंडल	हैं, जैसाकि कम टारा 13 लगम	पनी अधिनियम् वर २०१० को अ	2013 की घारा फोजिल जन्म	। 133 के साथ ही जंबंजित वै	पठित तदची रक में उपनि	न विरचित संब नेरवत्व किए	द्ध नियमों के अ गए श्रे लक्षा व	धीन निर्धारित है ज्यनी के व्यक्ति
	अनीता देवी मकान नं.—158 मौडल्ला— कायरखान अंशिक पूर नइनेशियल असेट्स एवं एनफोर्समेंट ऑफ सिक				लेखापरीक्षकों ह	ारा इन परिणाग	गें का सीमित !	गुनरीक्षण किया ग	गया है ।	) विनियमावली, 2								
ऋणी / ऋणियों / गारन्टर्स को उक्त नोटिस की	ए अनुच्छेद 13 के नियम 2 के अन्तर्गत प्रदत्त प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के मीतर बकाया रा	शे अदा करने के हि	अए मांग नोरि	टेस जारी किया था, जो बैंक की शाखा	वित्तीय परिणाम	ं के विस्तृत प्रा	रूप का संक्षिप	त विवरण हैं। ति	ामाही अलेख	, बापरीक्षित पृथक्कृ न येबसाइट्स (ww	त और समेकित	। वित्तीय परिणाम	रों का पूर्ण विव	वरण, "अलेखा	गरीक्षित आसि	त्तयों, इकिंवटी	तथा देयताओं"	और ''पृथक्कृत अ
मूल रूप में अधोहरताक्षर से प्राप्त कर सकते है	(Undelivered) वापस आ गया / लेने से इन्कार नोटिस की तिथि से 60 दिन के अन्दर करा दें अन			CONCINET A CONCINENT AND THE PRODUCES AN ADDRESS AND												वार		हिते निवेशक मंद ले फिल्म्स लिमिल
तथा पुनोनिर्माण एवं प्रतिमूति हित प्रवर्तन अधिनि	नेयम, 2002 के अनुच्छेद 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त श			त का प्रयोग करने का अधिकारी होगा। रच्च	थान : नई दिल्ल												प	हस्ता./ संगातो मुक ग कालिक निदेश
दिनांक 11.11.2019 COUL NOMED	स्थानः बरेली और पीलीभीत		-	प्राधिकृत अधिकारी ति	थिः १३–नवम्ब	-2019											ଣିଷ	ाईएन – 0646 <u>5</u> 9
in the court of Sh. Ramesh Kumar JMIC Ludhlans Next date, purpose of case , orders and	शुद्धिपत्र		F					सिंगर	হাঁভিন	या लिमिल	टेड							
Ludgeworts as well as other Case information is available on: http://ecourts.gov.in CNR NO. PBLD03-061382-2018	जनसत्ता 13 नवंबर, 2019 को प्रकाशित तालब्रोस इंजीनियरिंग							CIN: I	L52109DL	1977PLC025405 पिरेटिव इंडस्ट्रि	-							
NEXT DATE: 03-12-2019 V K KALRA HOBIERY VIS VRINDRA COLLECTION AND ANOTHER	लिमिटेड के स्टैण्डअलोन लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम के					वेवसाइट	: www.sing	erindia.net, 🖠	<b>(मेलः</b> m	ail@singerindia	.net; <b>टेलीः</b>	+91-11-406177	77					
PUBLICATION ISSUED TO UDAY SHANKAR SHARMA © YASHU BISAWA PROP OF M'S VRINDRA COLLECTION BA BA RAM DEV NAGAR 60 FEE T ROAD MATA KA THAN	शीर्षक में कम्पनी का सीआईएन न.			30 सित	तम्बर, 2019 क	िसमाप्त वि	माही और	छमाही के वि	लेए अनक	वित स्टॅंडअल	ॉन और क	सलिबेटेड वि	त्तीय परिण			र बेटा को	छोडकर और	अन्यथा कथित)
JOCHPUR RAJASTHAN Whereas It has been proved to the satisfaction of the court that you, the above named accused	L74210DL1986PLC033018 के वदले							स्टैंडवलोन							कसोलिडेटे	8		
Flatcused personal can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under section 82 of code of criminal procedure is hereby issued against	L74210HR1986PLC033018 पढ़ा जाए। असुविधा के लिए खेद है।		क. स	विवरण	30 सितम्बर	समाप्त तिम 30 जून	-	ाम्बर 30 सि	समाप्त छ स्तम्बर	0.0000055	समाप्त वर्ष 31 मार्च	३० सितम्बर	समाप्त तिम 30 जून	गही 30 सिल	ाम्बर 30	समाप्त । सितम्बर	ज्ञमाही 30 सितम्बर	समाप्त वर्ष 31 मार्च
you with a direction that you shouls appear personally before the court on 03-12-2019 at 10.00 a.m or within 30 days from the date of publication of this proclamation.	कार्म नं. एनसीएलटी. अए राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली	1	10.00		2019 (अनंके क्षित)	2019 (अनंके सित	2010	3 20		2018 (अनंकेक्षित)	2019 (अंके सित)	2019 (अनंके कित)	2019 (अनंके वित	201	8	2019 नंकेंसित)	2018 (अनंके क्षित)	2019 (अं के वित्त)
Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above, the above said case will be heard and determined as per tax, in your absence, for details togon to	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ के समक्ष कंपनी वाधिका सं.		1 State 1 Sec. 22	प्रचालन से कुल आय	10,337	12,41	5 10	625 2	22,752	21,703	48,469	10,339	12,419	10	628	22,758	21,709	48,490
https://highcourtshd.gov.in/?transistrict_notice &district=fudhiana Dated, this day of 84-11-2019	(सीएए) 170/पीबी/2018 सम्बद्ध			कर के पहले अवधि के लिए शुद्ध लाम कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाम	246 157	22		248 158	468 299	548 350	1,459 926	245 156	223	10.0	250 159	468 299	551 352	1,470 939
JMIC LUDHIANA	कंपनी आवेदन सं. सीए (सीएए) 145/पीबी/2018			अवधि/वर्ध के लिए कुल व्यापक आय (कर के बाद अवधि के लिए लाभ और कर के बाद अन्य														
In the court of sh. Devnoor singh JMSC ludhlana CNR NO:PBLD03-077368-2018 PESHI: 05-12-2019	<b>याधिका की सूचना</b> कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 230-232 के अंतर्गत प्रवासी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के साथ		8	व्यापक आय शमिल) मुगतान इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य 2 रूपये	155	14	2	157	295	348	918	154	141	1	158	295	350	931
PUBLICATION NOTICE FOR PROCLAMATION UNDER SECTION 82 CR.PC LOVNEESH KUMAR	हनुमान टेक्सटाइल मैनुफैक्वरिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, सनराइज मैनुफैक्वरिंग कंपनी		ų	पूर्णतः चुकता)	1,074	1,07	1	.074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1	074	1,074	1,074	1,074
V/S HIMANISH DAWAN Comptaint R/w sec-138 CF N LACT NOTICE TO: HIMANISH DAWAN,	लिमिटेड और स्टरलिंग ऑक्साइड लिमिटेड के समामेलन के लिए गोविन्द ऋषि द्वारा 10 अक्टूबर, 2019 को एक याविका प्रस्तुत की गई		5	बैलेंस शीट के अनुसार पुनर्भुल्यांकन रिजर्व्स को छोडकर रिजर्व्स					-	54	4,820				-	12	3	4,845
PROPRIETOR, M/S FASHION FOR HIM, SHOP NO.S. NALANDA APARTMENTS EVERSHINE NAGAR, MALAD (WEST), MUMBAI	थी और राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ के समक्ष कथित याथिका पर सुनवाई		7. 9	प्रति शैयर आय (रू 2 प्रति शेयर) (तिमाहियां / छमाहियां वार्षिकीकृत नहीं)					10000		19 10 A	12.00				100100	-	N Local
Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the accused above named cannot be served in the ordinary way of service.	की तिथि 26 नवम्बर, 2019 निर्धारित की गई है। कोई व्यक्ति जो उक्त याधिका का संगर्थन		4	ए. बेसिक (रू) बी. डायल्यूटिड (रू)	0.29	0.2		0.29 0.29	0.56 0.56	0.65 0.65	1.72 1.72	0.29 0.29	0.27		0.30 0.30	0.56 0.56	0.66 0.66	1.75
Hence, this proclamation under section (I2 CRPC is hereity issued against you with a direction that you about appear personally before the court or 05-	या विरोध करने का इच्छुक हो, वह याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को अपने आशय की सूचना, अपने नाम और पते सहित स्वयं या अपने अधिवक्ता के		टिप्पणी			synthesis and a			~ *									
Aziadria at 10.00 a m. Or within air days main the date of publication of this proclamation. Take notice that, in default of your part to appear as directed as above the above said case will be	हरताक्षर के साथ याचिका पर सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम 'दो दिन' पूर्व		18 666	परोक्त अवधि के दौरान रिपोर्ट करने के लिए क 3 नवम्बर, 2019 को आयोजित बैठक में ऊपर दि		- 1940 (MARANGE		and the second of the			और कंपनी	के निदेशक मं	इल द्वारा अन्	रुमोदित किय	ा गया है।			
beamt and determined as per law, in your absence Given under my hand and the seal of the court, this 01-11-2019	याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के पास भेज सकता है। यदि वह याचिका का विरोध करने का इव्स्कुक है तो विरोध का आधार या शपथपत्र की एक प्रति		3. से का	बी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) f 1 एक उद्धरण है। वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण	विनियमावली, 20 विवरण स्टॉक	15 के विनिय एक्सचेंज की	1 33 के अनु वेबसाइट w	सार, ऊपर दर्ज ww.bseindia.com	की गई 3 m तथा क	30 सितम्बर 2019 इंपनी की वेबसा	) को समाप्त इट www.sing	तिमाही और छ erindia.net पर	माही के लिए उपलब्ध है	स्टैंडअलोन ।	और कंसो।	लेडेटेड वित्त	य परिणामों व	का विस्तृत प्राक
FOR DETAILS LOOIN TO https://highcourtchd.gox.in/?tra=district_notice &district=fudhiana JMIC LUDHANA	ऐसी सूचना के साथ प्रस्तुत की जाए। याचिका की प्रति किसी व्यक्ति हारा गांग करने पर																कृते सिंगर	इंडिया लिमिटे हस्ता/-
"प्ररुप संख्या यूआरसी-2	त्तराके निर्धारित भूगतान के बाद अधिहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। दिनांक 13.11.2019 (हस्ता./−)			नई दिल्ली 13 नवम्बर, 2019														(राजीव बजाज प्रबंध निदेश
अधिनियम के अध्याय-21 के भाग-1 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के बारे में सूचना देने का विज्ञापन	नामः योविन्द ऋषि (याचिकाकर्ता के अधिवक्ता)		<u> </u>						-									
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374 (ख) और कंपनी (रजिस्टर करने के लिए प्राधिकृत)	पताः डी–112, पंधशील एन्क्लेब, नई दिल्ली–110017								Spiceje									
नियम, 2014 के नियम 4(1) के अनुसरण में] 1. यह सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम,	अर्जेंटीयम इंटरनेशल प्राईवेट लिमिटेड (पूर्व में शक्ति कमोडिटीज प्राईवेट लिमिटेड)							Spice.	Jet L	imited								
2013 की धारा 366 की उपचारा (2) के अनुसरण में कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय –21 के भाग 1 के अधीन इसके पढड़ दिन के पश्चात	CIN: U00000DL2001PTC110123 रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : ७७, श्याम लाल रोड.					The av	Indira Gar	idh i Internati CIN: L51909	tional Airp 9 DL 1984	oort, Terminal IPLC288239	1D, New D							
किंतु 30 दिन समाप्त होने के पूर्व रजिस्ट्रार को ऐसा एक आवेदन करना प्रस्तायित है कि एक्सेल	दूसरा प्रलोग दरियागंज, नई दिल्ली – 110002 ईमेल : admin@argentium.in प्रपत्र सं. आडएनसी–26			E-mail: in Extract of Unaudited	vestors@spic d Standalon										ber 30. 3	019		
एक्सपेरिमेट्स भागीदारी फर्म को शेयरों झारा सीमित किसी कंपनी के रुप में रजिस्ट्रीकृत किया जा सकंगा।	(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से								ndalon		quartera			Gaptani			(Ru	pees in millio
<ol> <li>कंपनी के मूल उद्देश्य निम्नानुसार हैं— व्यावसायिक एवं आवासीय परिसरों एवं भवनों</li> </ol>	दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन	s			-	Qu	arter ende	03950	1.01.01.01.0	e Period ended	Year	ended	Qua	rter ende	2.1/2	olidated Perio	d ended	Year end
का निर्माण, प्रमोशन, स्थापना, विकास, नियंत्रण, अधिग्रहण, प्रबंधन, संचालन, चलाना आदिकार्य करना, उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएँ एवं सेवाओं	केन्द्रीय सरकार / प्रावेशिक निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा	S. No.	P	Particulars	Ut		2010-100-100-100-100-100-100-100-100-100	1		dited Unauc		STOC AT IN ONON-			***		d Unaudite	
सहित किराया माठें पर देनां एवं इनसे सम्बंधित और सम्बद्ध अन्य प्रकार के जरुरी कार्य करना।	(4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के जियम 30 के उपनियम (5) के खंड (ए) के मामले में				36	-Sep-19	30-Jun-19	30-Sep-18	8 30-Se	ep-19 30-Se	p-18 31-N	Mar-19 30-	Sep-19 30	Jun-19 3	0-Sep-18	30-Sep-1	9 30-Sep-1	18 31-Mar-1
3 प्रस्तावित कंपनी का ज्ञापन और प्ररुप संगम अनुबछेद की एक प्रति की जांच मकान न 2200, ब्लॉक ए, जीएफ, सुशांत लोक – 1,	और अर्जेंटीयम इंटरनेशल प्राईवेट लिमिटेड (पूर्व में शक्ति कमोडिटीज प्राईवेट लिमिटेड)			ome from operations			30,020.7	18,748.1	58,47			sectors Concern	480.1 30	0,028.5	18,766.7	Contestantina	6 40,982.6	10 <sup>-1</sup> -100000000000000000000000000000000
गुरुग्राम – 122002 हस्यिणी कार्यालय में की जा सकेगी।	जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : 79, श्याम लाल रोड, दूसरा फ्लोर, दरियागंज, नई दिल्ली – 110002	2		t / (Loss) for the period (before Tax, nal and/or Extraordinary items)	(4	,625.8)	2,616.7	(3,893.7)	(2,00	9.1) (3,639	9.6) (2,5	(4,1	612.2) 2	,628.9	(3,827.2)	(1,983.)	3) (3,578.3	) (2,389.2
<ol> <li>यह सूचना दी जाती है कि इस आवेदन पर आक्षेप करने वाला कोई भी व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन भीतर अपने</li> </ol>	में रिधत है याचिकाकर्ता आम जनता को यह सुचना दी जाती है कि यह कपनी			t / (Loss) for the period before tax	(4	,625.8)	2,616.7	(3,893.7)	(2,00	9.1) (4,274	4.3) (3,1	60.8) (4,4	512.2) 2	,628.9	(3,827.2)	(1,983.3	3) (4,212.9	) (3,023.8
आक्षेप कींत्ररहार को लिखित में केंद्रीय रजिस्ट्रीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कंपनी कार्य संस्थान	केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव		Storage Course	ceptional items) t / (Loss) for the period after tax		,625.8)	2,616.7	(3,893.7)	(2,00	9.1) (4,274	13) /2 1	60.8) (4,	512.2) 2	,628.9	(3,827.2)	/1.092 *	3) (4,212.9	) (3,024.1
(आईआईसीए), प्लाट संख्या 6,7.8, सैक्टर 5, आईएमटी मानेसर, जिला —गुढगांव (इरियाणा), पिन कोंड 122050 को लिखत में भेंज सकेगा	करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "पश्चिम बंगाल राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए तारीख			ceptional and/or Extraordinary items)		.,	and that	(0,000.1)	12,00		191	(4,)			0,021.6)	(1,000.0	(1,212.3	(o)veri
जिसकी एक प्रति कंपनी को जसके रजिस्ट्रीकृत पते पर भी मेजी जाए।	वीरवार 31, जक्टूबर 2019 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ मे कंपनी के संघम झापन में संझोधन की पृष्टि की मांग		[Compris	mprehensive Income for the period sing Profit / (Loss) for the period (after tax)	) and (4	,644.9)	2,603.1	(3,891.8)	(2,04	1.7) (4,270	0.9) (3,1	75.3) (4,	531.2) 2	,615.3	(3,825.3)	(2,015.9	) (4,209.5	) (3,038.6
तारीख : 12.11.2019 आवेदक का नाम 1. अभिषेक आनंद	की गई हैं। कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित		Other Co	omprehensive Income (after tax)]					-			-						
<ol> <li>प्रशांत पविधरन 3.गणेश कुमार</li> </ol>	रंग्यानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रमावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररुप फाइल कर एमसीए–21 पॉर्टल (www.mca.gov.in) में	D	0.04/06/05/04	nare capital							5,9	97.2					_	5,997.2
<ol> <li>सितिन विनायक</li> <li>किरणदिप कॉर</li> <li>सोमश्कर नटराजन</li> </ol>	शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का			s (excluding Revaluation Reserve) as sho Balance Sheet of the year ended March 3							(9,5	03.8)						(9,496.8
	कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सुबना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी–2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण	1000		Per Share (of Rs. 10/- each) (not annuali	000003	(7.71)	4.36	10.500	10.0	(7.1	2) /	27)	7.69)	4.38	16.201	12.24	(7.03)	15.00
	भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 पते पर पंजीकृत ढाक दवारा भेज सकता है या सुपुर्द कर		a) Basic ( b) Diluted			(7.70)	4.36	(6.50) (6.49)	(3.3		-			4.38	(6.38) (6.38)	(3.31) (3.30)	(7.03)	(5.04)
	सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर श्री मेजेगाः '79. श्याम लाल रोड, दूसरा फ्लोर, दरियागंज,	Notes							10		-			10.0				
	"79, श्रंथाम लाल राढ, दूसरा फ्लोर, दारियामज, नई दिल्ली – 110002" कृत्ते आवेदक की ओर से	SE	BI (Listing	s an extract of the detailed format of Unaud g Obligations and Disclosure Requirement	ts) Regulation:	2015. The	full format	of the Unauc	dited Sta	ndalone and (	<ul> <li>1.1267.01.031310165300.</li> </ul>	0.0000000000000000000000000000000000000				ACTIVE PROPERTY AND A DESCRIPTION OF A D	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	अर्जेंटीयम इंटरनेशल प्राईवेट लिमिटेड हस्ता./-	ava		the Company's website www.spicejet.com	and on the we	bsite of the	Stock Exch	anges www.	bseindia	.com.							For Spic	eJet Limited Sd/-
	सुमाष केंश्रिया तिथि = 13/11/2019 निदेशक स्थान : नई दिल्ली बीआईएन : 00459932	Data: N	Gurugram, November 1													Chairman	and Manag	Ajay Singh ging Director
		58 (SL.)																

TRADE
(Jindal)
MARK

-				करोड़ में 1	सवाय ईपीएस		ř –		11917		करोड़ में सि	वाय ईपीएस
f	तमाही समाप		केत फ्रमारी	समाप्त	वर्ष समाप्त		Ê	ामाही समाप	पृथः त	ख्या छमाही	समाज	वर्ष समाप्त
30 सित., 2019	30 जून, 2019	30 सित., 2018	30 सित., 2019	30 सित., 2018	<u>31 मार्च,</u> 2019	विवरण	30 सित., 2019	30 जून, 2019	30 सित., 2018	30 सित., 2019		31 मार्च, 2019
प्रलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीवित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित		अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित		अलेखापरीवित	
853.51	858.26	972,05	1,711.78	1,821.48	3,578.70	परिधालन से कुल आय (जारी प्रधालन)	839.07	849.71	959.75	1,688.78	1,802.21	3,587.87
96.73	105.01	95,14	201.75	180.48	307.37	जारी प्रयालनों से अवधि हेतु शुद्ध लाम (कर अपवाद लया/अथवा असाधारण मदाँ से पूर्व)	92.84	101,13	90.93	193.97	172.28	329.77
98.84	102.65	(16.12)	201.50	66.45	(297.32)	जारी प्रचालनों से अवधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि) कर पूर्व (अपवाद तथा/अथवा असाधारण अपवाद मदों के बाद)	94.95	98.77	(20.34)	193.72	58.25	(246.79)
161.32	67.23	(10.55)	228.56	43.39	(445.62)	जारी प्रचालनों से अवधि हेतु शुद्ध लाभ/हानि, कर, गैर– नियंत्रक व्याज और एसोशिएट के लाभ के अंश के पश्चात, मूल के इक्विटी धारकों हेतु आरोप्य,	157.82	64.51	(13.54)	222.32	37,59	(389.42)
(0.54)	19.13	0.98	18.58	12.34	36.96	बंद प्रचालनों से अवधि हेतु शुद्ध लाभ	4.78	2.83	2.89	7.60	5.80	36.41
160.78	86.36	(9.56)	247.14	55.73	(408.65)	अवधि हेतु कुल शुद्ध लाम (जारी और बंद प्रचालन)	162.60	67.33	(10.66)	229.92	43.39	(353.01)
161.14	67.23	(10.55)	228.38	43.39	(442.03)	जारी प्रचालनों से अवधि हेतु कुल समावेशी आय (जिसमें अवधि हेतु लाभ / (हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) सम्मिलित हैं) मूल के इक्विटी धारकों हेत आरोप्य,	157.64	64.51	(13.54)	222.14	37.59	(387.13)
7.85	27.73	50.78	35.58	77.40	227.34	बंद प्रचालनों से अवधि हेतु कुल समायेशी आय (जिसमें अवधि हेतु लाम/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य समायेशी आय (कर पश्चात) सम्मिलित है) मूल के इविवटी घारकों हेतु आरोप्य,	4.77	2.83	2.89	7.59	5.80	36.53
168.99	94.96	40.23	263.96	120.79	(214.68)	बंद और जारी प्रचालनों से अवधि हेतु कुल समावेशी आय (जिसमें अवधि हेतु लाभ / (हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) सम्मिलित हैं) मूल के इक्विटी धारकों हेतु आरोप्य,	162.41	67.33	(10.65)	229.73	43.39	(350.60)
43.79	43.79	43,79	43.79	43.79	43.79	प्रवत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रू. 10/- प्रत्येक)	43.79	43.79	43.79	43.79	43.79	43.79
0.000		1000000		Strove K	2,213.22	अन्य इविवटी (पुनर्मूल्यन संचेय छोडकर)	0,000,000,000					1,415.08
36.84	15.36	(2.41)	52.20	9.91	(101.77)	मूल एवं तनुकृत अर्जन/(हानि) प्रति शेयर – जारी प्रचालन	36.04	14.73	(3.09)	50.77	8.59	(88.94)
(0.12)	4.37	0.22	4.24	2.82	8.44	मूल एवं तनुकृत अर्जन/(हानि) प्रति शेयर – बंद प्रचालन	1.09	0.65	0.66	1.74	1.33	8.32
36.72	19.72	(2.18)	56.44	12.73	(93.33)	मूल एवं तनुकृत अर्जन/(हानि) प्रति शेयर– जारी और बंद प्रचालन	37.13	15.38	(2.43)	52.51	9.91	(80.62)

नई दिल्ली